

**प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना-दावा फार्म**

**(दावेदार और बैंक द्वारा पूरा किया जाना है)**

1. योजना का नाम : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
2. पालिसी सं. :
3. बैंक का पूरा नाम और पता :
4. मृतक सदस्य का पूरा नाम :
5. मृतक सदस्य का बचत बैंक खाता सं.:
6. मृतक का आधार नम्बर (यदि उपलब्ध हो)
7. सदस्य द्वारा योजना में प्रविष्टि की तिथि:
8. सदस्य की मृत्यु की तिथि :
9. मृत्यु का कारण :
10. नामिती का नाम\* :
11. नामिती के साथ सम्बंध :
12. नामिती का पता :
13. नामिती का मोबाइल नम्बर :
14. आधार नम्बर, यदि उपलब्ध हो :
15. नामिती के बचत बैंक खाता के विवरण:

आईएफएससी कोड :

बचत बैंक खाता संख्या.....

हम घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर हर प्रकार से सही हैं तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत उपर्युक्त मृतक सदस्य हेतु दायर किया गया यह एकमात्र दावा है। हम विधिवत् रूप से निष्पादित अदायगी फार्म के साथ सदस्य की मृत्यु के प्रमाण के रूप में मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करते हैं।

\*नामिती के नाबालिग होने की स्थिति में, अभिभावक/नियुक्त व्यक्ति दावा फार्म भर सकता है।

(नामिती/दावेदार के हस्ताक्षर\*)

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सदस्य पीएमजेबीवाई योजना के अंतर्गत बीमित था और उसकी मृत्यु से पहले की नवीनीकरण तिथि पर उसके बैंक खाते से प्रीमियम नामे किया गया था और..... (बीमा कंपनी का नाम) को भेज दिया गया था। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हमारे अभिलेखानुसार श्री/श्रीमती ..... उपरोक्त योजना के अंतर्गत बीमित सदस्य का/की नामिती हैं।

स्थान.....

तिथि:.....

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

मोहर

संलग्नक: मृत्यु प्रमाणपत्र और अदायगी फार्म

पीएमजेजेबीवाई योजना के अंतर्गत भुगतान हेतु अदायगी रसीद

पॉलिसी सं. :

बैंक का नाम:

मैं/हम..... इस योजना के अंतर्गत बचत खाता संख्या.....के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री.....के जीवन पर पॉलिसी के तहत पूर्ण संतुष्टि के साथ अपने सभी दावों की अदायगी हेतु एतद्वारा ..... (बीमा कम्पनी का नाम) से 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये केवल) की राशि की प्राप्ति की पावती देता/देती हूँ/देते हैं।

स्थान ..... तिथि.....माह.....वर्ष 20

साक्षी:.....

राजस्व

.....  
.....

.....  
(नामिती\*/दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

नामिती/नियुक्त व्यक्ति (नामिती अवयस्क होने के मामले में) का विवरण :

नाम :.....

मोबाइल नम्बर :.....

ईमेल आईडी :

.....

आधार नम्बर (यदि उपलब्ध हो):

बैंक खाता सं. :.....

बैंक का नाम : .....

शाखा:

.....

पता : .....

.....

आईएफएससी कोड : .....

{निरस्त चेक की प्रति (यदि उपलब्ध हो) लगायी जाए}

\*यदि नामिती अवयस्क है तो अभिभावक/नियुक्त व्यक्ति यह फार्म भरेगा।

.....  
(नामिती\*/दावाकर्ता के हस्ताक्षर)

## पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत दावा निपटान प्रक्रिया

किसी सदस्य की मृत्यु पर उसके नामिती/नामितियों को 2,00,000/- रुपये की राशि देय है। व्यक्ति को जोखिम कवर वार्षिक नवीकरण तिथि पर उसकी आयु 18 वर्ष (पूर्ण) से 55 वर्ष की आयु पूरी करने तक (समीपवर्ती जन्मदिवस) अर्थात् 55 वर्ष की आयु पूरी करने (समीपवर्ती जन्मदिवस) पर अथवा बैंक खाता बंद करने पर अथवा बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि अपर्याप्त रहने पर पात्रता समाप्त हो जाएगी। 2,00,000/- रुपये के मृत्यु दावा लाभ का निपटान संबंधित बीमा कम्पनी के कार्यालय द्वारा किया जाएगा। निम्न प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:

नामिती द्वारा उठाए जाने वाले कदम :

1. नामिती, सदस्य के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ उस बैंक, जिसमें सदस्य का "बचत बैंक खाता" था जिसके माध्यम से वह पीएमजेजेबीवाई के तहत कवर था, से संपर्क करेगा।
2. नामिती को बैंक अथवा निर्धारित वेबसाइट सहित कोई अन्य निर्धारित स्रोत जैसे बीमा कम्पनी की शाखाएं, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बैंकिंग कौरपोंडेंट्स बीमा अभिकर्ता इत्यादि से दावा फार्म और अदायगी रसीद प्राप्त करनी होगी। संबंधित बीमा कम्पनियां ऐसे सभी स्थानों पर फार्मों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी। फार्म हेतु अनुरोध पर किसी व्यक्ति को इसकी आपूर्ति की मनाही नहीं की जाएगी।
3. नामिती को विधिवत् रूप से भरे हुए दावा फार्म, अदायगी रसीद, मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ नामिती के बैंक खाते के चेक (यदि उपलब्ध हो) की निरस्त प्रति अथवा उस बैंक के बैंक खाते का विवरण जिसमें सदस्य का 'बचत बैंक खाता' था जिसके माध्यम से वह पीएमजेजेबीवाई के तहत कवर था/थी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

बैंक द्वारा उठाए जाने वाले कदम:

1. मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के उपरांत बैंक को यह जांच करनी चाहिए कि क्या मृत्यु की तिथि पर कथित सदस्य का कवर लागू था अर्थात् वार्षिक नवीकरण तिथि यथा सदस्य की मृत्यु से पिछली 1 जून को प्रीमियम की कटौती की गयी थी तथा उसे संबंधित बीमा कम्पनी को विप्रेषित किया गया था।
2. बैंक को अपने पास उपलब्ध अभिलेखों से दावा फार्म और नामिती के विवरणों को सत्यापित करना होगा तथा दावा फार्म में संगत कॉलम भरने होंगे।
3. बैंक को संबंधित बीमा कम्पनी के निर्दिष्ट कार्यालय को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:
  - क. विधिवत् रूप से भरा हुआ दावा फार्म
  - ख. मृत्यु प्रमाण पत्र
  - ग. अदायगी रसीद
  - घ. नामिती के निरस्त चेक (यदि उपलब्ध हो) की फोटोप्रति

4. बीमा कम्पनी को विधिवत् रूप से भरे हुए दावा फार्म को अग्रेषित करने हेतु बैंक के लिए अधिकतम समय सीमा, उसे दावा प्रस्तुत होने से, तीस दिन है।

बीमा कम्पनी के निर्दिष्ट कार्यालय द्वारा उठाए जाने वाले कदम:

1. यह सत्यापित करना कि दावा फार्म समुचित रूप से पूर्ण है तथा सभी संगत दस्तावेज संलग्न किए गए हैं। यदि नहीं, तो संबंधित बैंक से सम्पर्क/अनुवर्ती कार्रवाई करें।
2. यदि दावा स्वीकार्य है तो बीमाकर्ता का निर्धारित अधिकारी यह जांच करेगा कि सदस्य का कवरेज लागू है तथा सदस्य के लिए किसी अन्य खाते से मृत्यु दावे का निपटान नहीं किया गया है। यदि कोई दावा भुगतान किया गया है, तो नामिती को तदनु रूप सूचित किया जाएगा व बैंक को एक प्रति प्रेषित की जाएगी।
3. यदि कवरेज लागू थी तथा कथित सदस्य हेतु किसी दावे का निपटान नहीं किया गया है, तो नामिती के बैंक खाते में भुगतान जारी कर दिया जाएगा तथा नामिति को पत्र भेजा जाएगा जिसकी प्रति बैंक को प्रेषित की जाएगी।
4. बीमा कम्पनी के लिए दावे को अनुमोदित करने तथा धन संवितरित करने हेतु अधिकतम समय सीमा बैंक से दावा प्राप्त होने से तीस दिन है।

यदि बीमाकर्ता के किसी कार्यालय में दावाकर्ता द्वारा सीधे ही दावा फार्म प्रस्तुत किया जाता है, तो बीमाकर्ता कार्यालय द्वारा उसका आवश्यक सत्यापन इत्यादि कराने हेतु उसे मृतक खाता धारक के संबंधित बैंक को तत्काल अग्रेषित किया जाएगा। दावे पर कार्रवाई करने हेतु संबंधित बैंक शाखा, दावा फार्म को बीमा कम्पनी के निर्दिष्ट कार्यालय को अग्रेषित करेगी।

\*\*\*\*\*